

Col

Chapter 4

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες
-हो मलिकोन -को न्यअय और -को बरअब्रि -के दसोन दो
[G3588](#) [G2962](#) [G3588](#) [G1342](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2471](#) [G3588](#) [G1401](#) [G3930](#) [G1492](#)

ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανῷ.
कि भि तुम रखते-हो प्रभु मेइन स्वरग
[G3754](#) [G2532](#) [G4771](#) [G2192](#) [G2962](#) [G1722](#) [G3772](#)

हे स्वामियों, तुम अपने सेवकों को जो उनका बनता है और उचित है, दो। याद रखो स्वर्ग में तुम्हारा भी कोई स्वामी है।

2 Τῇ προσευχῇ προσκατερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστία;
-मेइन प्ररथन लगे-रहो जगते-हुए मेइन उस-मेइन मेइन धन्यवाद
[G3588](#) [G4335](#) [G4342](#) [G1127](#) [G1722](#) [G0846](#) [G1722](#) [G2169](#)

प्रार्थना में सदा लगे रहो। और जब तुम प्रार्थना करो तो सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो।

3 προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν
प्ररथन-करते-हुए सथ भि के-लिये हमरे कि -हो परमेशवर खोले हमेइन दवर
[G4336](#) [G0260](#) [G2532](#) [G4012](#) [G1473](#) [G2443](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0455](#) [G1473](#) [G2374](#)

τοῦ λόγου, λαλήσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι' ὃ καὶ δέδεμαι,
-क वचन बोलने -को रहस्य -क खरिस्तोस के-लिये जिस भि मैन-बनध-होओन
[G3588](#) [G3056](#) [G2980](#) [G3588](#) [G3466](#) [G3588](#) [G5547](#) [G1223](#) [G3739](#) [G2532](#) [G1210](#)

साथ ही साथ हमारे लिये भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें अपने संदेश के प्रचार का तथा मसीह से सम्बन्धित रहस्यपूर्ण सत्य के प्रवचन का अवसर प्रदान करे क्योंकि इसके कारण ही मैं बन्दीगृह में हूँ।

4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ, ὡς δεῖ με λαλήσαι.
कि मैन-प्रकत-करोओन उसे जैस चहिये मुझे बोलन
[G2443](#) [G5319](#) [G0846](#) [G5613](#) [G1163](#) [G1473](#) [G2980](#)

प्रार्थना करो कि मैं इसे ऐसे स्पष्टता के साथ बता सकूँ जैसे मुझे बताना चाहिए।

5 Ἐν σοφίᾳ, περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.
मेइन बुदधि चलो के-प्रति -को बअहरवलोन -को समय मोल-लेते-हुए
[G1722](#) [G4678](#) [G4043](#) [G4314](#) [G3588](#) [G1854](#) [G3588](#) [G2540](#) [G1805](#)

बाहर के लोगों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करो। हर अवसर का पूरा-पूरा उपयोग करो।

6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναί πῶς δεῖ
-हो वचन तुमहर सद मेइन अनुग्रह नमक-से सवदिशत जअन्न कैसे चहिये
[G3588](#) [G3056](#) [G4771](#) [G3842](#) [G1722](#) [G5485](#) [G0217](#) [G0741](#) [G1492](#) [G4459](#) [G1163](#)

ὑμᾶς ἐνὶ ἐκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.
तुमहेइन एक हर-एक उत्तर-देन
[G4771](#) [G1520](#) [G1538](#) [G0611](#)

तुम्हारी बोली सदा मीठी रहे और उससे बुद्धि की छटा बिखरे ताकि तुम जान लो कि किस व्यक्ति को कैसे उत्तर देना है।

7 Τὰ κατ' ἐμὲ πάντα, γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς, ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς, καὶ
 -को के-विशय मेरे सब जतयेग तुमहेइन तुचिकोस -हो प्रिय भै और
[G3588](#) [G2596](#) [G1473](#) [G3956](#) [G1107](#) [G4771](#) [G5190](#) [G3588](#) [G0027](#) [G0080](#) [G2532](#)

πιστὸς διάκονος, καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ;
 विशवस्योग्य सेवक और सह-दस मेइन प्रभु
[G4103](#) [G1249](#) [G2532](#) [G4889](#) [G1722](#) [G2962](#)

हमारा प्रिय बन्धु तुखिकुस जो एक विश्वासी सेवक और प्रभु में स्थित साथी दास है, तुम्हें मेरे सभी समाचार बता देगा।

8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γινώτε τὰ περὶ ἡμῶν,
 जिसे मैंने-भेज के-पस तुमहरे के-लिये इसि इस कि तुम-जअनो -को के-विशय हमरे
[G3739](#) [G3992](#) [G4314](#) [G4771](#) [G1519](#) [G0846](#) [G3778](#) [G2443](#) [G1097](#) [G3588](#) [G4012](#) [G1473](#)

καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν;
 और वोह-दिलस-दे -को दिलोन तुमहरे
[G2532](#) [G3870](#) [G3588](#) [G2588](#) [G4771](#)

मैं उसे तुम्हारे पास इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम्हें उससे हमारे हालचाल का पता चल जाये वह तुम्हारे हृदयों को प्रोत्साहित करेगा।

9 σὺν Ὁνησίμῳ, τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὃς ἐστὶν ἐξ ὑμῶν.
 के-सथ ओनेसिमोस -के विशवस्योग्य और प्रिये भै जो है से तुमहरे
[G4862](#) [G3682](#) [G3588](#) [G4103](#) [G2532](#) [G0027](#) [G0080](#) [G3739](#) [G1510](#) [G1537](#) [G4771](#)

πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.
 सब तुमहेइन वे-जतयेनगे -को यहअन
[G3956](#) [G4771](#) [G1107](#) [G3588](#) [G5602](#)

मैं अपने विश्वासी तथा प्रिय बन्धु उनेसिमस को भी उसके साथ भेज रहा हूँ जो तुम्हीं में से एक है। वे, यहाँ जो कुछ घट रहा है, उसे तुम्हें बतायेंगे।

10 Ἀσπάζεται ὑμᾶς, Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μάρκος, ὁ
 अभिवअदन-करत-है तुमहेइन अरिस्तरखोस -हो सह-बन्दि मेर और मरकोस -हो
[G0782](#) [G4771](#) [G0708](#) [G3588](#) [G4869](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3138](#) [G3588](#)

ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολὰς; ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς,
 भनज बरनब के-बअरे-मेइन जिसि तुम-ने-पय अअदेश यदि वोह-अअये के-पस तुमहरे
[G0431](#) [G0921](#) [G4012](#) [G3739](#) [G2983](#) [G1785](#) [G1437](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#)

δέξασθε αὐτόν,
 सविकअरो उसे
[G1209](#) [G0846](#)

अरिस्तरखुस का जो बन्दीगृह में मेरे साथ रहा है तथा बरनाबास के बन्धु मरकुस का तुम्हें नमस्कार, (उसके विषय में तुम निर्देश पा ही चुके हो कि यदि वह तुम्हारे पास आये तो उसका स्वागत करना),

11 καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος. οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι
 और येशु -हो केहलअत युस्तोस -हो होते-हुए से खतन ये अकेले
[G2532](#) [G2424](#) [G3588](#) [G3004](#) [G2459](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1537](#) [G4061](#) [G3778](#) [G3441](#)

συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία.
 सह-करमि के-लिये -के रजय -के परमेशवर जो बन-गये मेरे-लिये शन्ति
[G4904](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3748](#) [G1096](#) [G1473](#) [G3931](#)

यूसतुस कहलाने वाले यीशु का भी तुम्हें नमस्कार पहुँचे। यहूदी विश्वासियों में बस ये ही परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये मेरे लिये आनन्द का कारण रहे हैं।

- 12 ἀσπάζεταιται ὑμᾶς, Ἐπαφροῶς ὁ εἷς ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, πάντοτε
 अभिवन्दन-करत-है तुमहेइन एपफरस -हो से तुमहरे दस खरिस्तोस येशु सद
[G0782](#) [G4771](#) [G1889](#) [G3588](#) [G1537](#) [G4771](#) [G1401](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3842](#)
- ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ
 सनघरश-करत-हुअ के-लिये तुमहरे मेइन -मेइन प्ररथनओन कि तुम-खदे-रहो पुरन और
[G0075](#) [G5228](#) [G4771](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4335](#) [G2443](#) [G2476](#) [G5046](#) [G2532](#)
- πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ.
 पुरन-निशचित मेइन सब इच्छ -के परमेशवर
[G4135](#) [G1722](#) [G3956](#) [G2307](#) [G3588](#) [G2316](#)

इपफ्रास का भी तुम्हें नमस्कार पहुँचे। वह तुम्हीं में से एक है और मसीह यीशु का सेवक है। वह सदा बड़ी वेदना के साथ तुम्हारे लिये लगनपूर्वक प्रार्थना करता रहता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से सम्पूर्ण बनने के लिये विकास करते रहो। तथा विश्वासपूर्वक परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल बने रहो।

- 13 μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ, ὅτι ἔχει πῶλον πόνον ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ τῶν
 मैन-गवहि-देत-होओन क्योनकि उस्कि कि वोह-रखत-है बहुत परिश्रम के-लिये तुमहरे और -के
[G3140](#) [G1063](#) [G0846](#) [G3754](#) [G2192](#) [G4183](#) [G4192](#) [G5228](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3588](#)
- ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει.
 मेइन लओदिकेइअ और -के मेइन हिएर-पोलिस
[G1722](#) [G2993](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2413](#) [G4172](#)

मैं इसका साक्षी हूँ कि वह तुम्हारे लिये और लौदीकिया तथा हियरापुलिस के रहने वालों के लिये सदा कड़ा परिश्रम करता रहा है।

- 14 ἀσπάζεταιται ὑμᾶς Λουκᾶς, ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητὸς, καὶ Δημᾶς.
 अभिवन्दन-करत-है तुमहेइन लोउकस -हो वैद्य -हो प्रिय और देमस
[G0782](#) [G4771](#) [G3065](#) [G3588](#) [G2395](#) [G3588](#) [G0027](#) [G2532](#) [G1214](#)

प्रिय चिकित्सक लूका तथा देमास तुम्हें नमस्कार भेजते हैं।

- 15 Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφούς, καὶ Νύμφαν, καὶ τὴν κατ'
 अभिवन्दन-करो -को मेइन लओदिकेइअ भैयोन और और नुमफ और -को के-अनुसर
[G0782](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2993](#) [G0080](#) [G2532](#) [G3564](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2596](#)
- οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν.
 घर उसके कलिसिअ
[G3624](#) [G0846](#) [G1577](#)

लौदीकिया में रहने वाले भाइयों को तथा नमुफास और उस कलीसिया को जो उसके घर में जुड़ती है, नमस्कार पहुँचे।

- 16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῆ παρ' ὑμῖν ἢ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν
 और जब पध-जये के-पस तुमहरे -हो पत्र करो कि भि मेइन
[G2532](#) [G3752](#) [G0314](#) [G3844](#) [G4771](#) [G3588](#) [G1992](#) [G4160](#) [G2443](#) [G2532](#) [G1722](#)
- τῆς Λαοδικέων ἐκκλησίας, ἀναγνωσθῆ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας, ἵνα καὶ
 -मेइन लओदिकेइयोन कलिसिअ पध-जये और -को से लओदिकेइअ कि भि
[G3588](#) [G2994](#) [G1577](#) [G0314](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1537](#) [G2993](#) [G2443](#) [G2532](#)
- ὑμεῖς ἀναγνώτε.
 तुम पधो
[G4771](#) [G0314](#)

और देखो, पत्र जब तुम्हारे सम्मुख पढ़ा जा चुके, तब इस बात का निश्चय कर लेना कि इसे लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़वा दिया जाये। और लौदीकिया से मेरा जो पत्र तुम्हें मिले, उसे तुम भी पढ़ लेना।

17 καὶ εἶπατε Ἀρχίπαυ, βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα
और कहो अरखिप्पोस देख -को सेव जो तुने-पय मेइन प्रभु कि
[G2532](#) [G3004](#) [G0751](#) [G0991](#) [G3588](#) [G1248](#) [G3739](#) [G3880](#) [G1722](#) [G2962](#) [G2443](#)

αὐτὴν πληροῖς.
उसे तु-पोओर-कर
[G0846](#) [G4137](#)

| अखिप्पुस से कहना कि वह इस बात का ध्यान रखे कि प्रभु में जो सेवा उसे सौंपी गयी है, वह उसे निश्चय के साथ पूरा करे।

18 Ὁ ἀσπασμὸς τῆ ἐμῆ χειρὶ -- Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν.
-हो अभिवअदन -के मेरे हअथ पौलोस यअद-रखो मेरे -को बनधोन
[G3588](#) [G0783](#) [G3588](#) [G1699](#) [G5495](#) [G3972](#) [G3421](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1199](#)

ἢ χάρις μεθ' ὑμῶν. <Ἀμήν>.
-हो अनुग्रह के-सथ तुमहरे अमेन
[G3588](#) [G5485](#) [G3326](#) [G4771](#) [G0281](#)

| मैं पौलुस स्वयं अपनी लेखनी से यह नमस्कार लिख रहा हूँ। याद रखना मैं कारागार में हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे।